



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2007/चैत्र 8, 1929

No. 333]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2007/CHAITRA 8, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

New Delhi, the 29th March, 2007

का.आ. 462(अ).—केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि देश में कुछ केबल ऑपरेटर अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये “एफटीवी.कॉम इंडिया” नामक एक उपग्रह चैनल को प्रसारित/पुनःप्रसारित कर रहे हैं जिसके बारे में “मिडनाईट हॉट” जैसे कार्यक्रमों को प्रसारित करने की सूचना मिली है जिसमें अपर्याप्त वस्त्र पहने हुए मॉडल और अर्द्ध-नग्न मॉडल दिखाई जाती हैं जो कि सुरुचि और शालीनता के विरुद्ध हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं तथा जिनसे जनसामान्य की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार देश में उक्त चैनल के प्रसारण या पुनःप्रसारण पर रोक लगाना आवश्यक समझती है।

S.O. 462(E).—It has come to the notice of the Central Government that some Cable Operators in the country through their Cable Television Networks are transmitting/re-transmitting a satellite channel namely “FTV.Com India” which is reportedly telecasting programmes such as ‘Midnight Hot’ wherein skimpily dressed and semi naked models are shown that are against good taste and decency, denigrates women and are likely to adversely affect public morality. Therefore, the Central Government thinks it necessary to prohibit transmission or re-transmission of the said channel in the country.

2. इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 की सं. 7) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “एफटीवी.कॉम इंडिया” को सारे देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा किसी अन्य मंच के जरिए प्रसारित/पुनःप्रसारित करने पर दिनांक 01-04-2007 से 30-05-2007 तक एतद्द्वारा रोक लगाती है।

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 20 of the Cable Television Networks Regulation Act, 1995 (No. 7 of 1995), as amended from time to time, Central Government hereby prohibits transmission/re-transmission of “FTV.Com India” with effect from 01-04-2007 and up to 30-05-2007 through Cable Television Networks and any other platform throughout the country.

[फा. सं. 2206/22/2006-बीसी-III]

[F.No. 2206/22/2006-BC-III]

वी. बी. प्यारेलाल, संयुक्त सचिव

V. B. PYARELAL, Jt. Secy.